

11 JAN 1978

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

अधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 2] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 1978/पोष 14, 1899
No. 2] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 1978/PAUSA 14, 1899

इस भाग में मित पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1977

संख्या एक० 31/4/76/ए०एन०-1/जी०एन०-742/77.—लोक सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1955 के नियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, अध्वक्ष एतद्द्वारा लोक सभा सचिवालय (आचरण) नियम, 1955 में अग्रोत्तर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम लोक सभा सचिवालय (आचरण) संशोधन नियम, 1977 कहे जा सकते हैं।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लोक सभा सचिवालय (आचरण) नियम, 1955 (जिन्हें इसके पश्चात् कथित निबन्ध कहा गया है) के नियम 24-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“24-ख कोई अधिकारी किसी ऐसे संगम में सम्मिलित नहीं होगा, या उसका सदस्य नहीं बना रहेगा जिसका उद्देश्य या कार्यवाही भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता या लोकदेश या नैतिकता के प्रतिकूल हो।”

3. कथित नियमों में, नियम 30-क का सोंप किया जायेगा।

4. कथित नियमों में जहाँ नहीं भी "महासचिव" शब्द आया हो वहाँ उसके स्थान पर "सचिव" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

अवतार सिंह रिखी, सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1977

No. F. 31/4/76/AN-1/G.N.-742/77.—In exercise of the powers conferred by Rule 19 of the Lok Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1955, the Speaker hereby makes the following rules further to amend the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Rules, 1955, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For Rule 24-B of the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said Rules), *substitute* the following :

"24-B. No officer shall join or continue to be a member of, an association the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality."

3. In the said Rules, Rule 30-A shall be *omitted*.

4. In the said Rules, for the word "Secretary-General".
wherever it occurs, the word "Secretary" shall be *substituted*.

AVTAR SINGH RIKHY, Secy.